

Caution Notice

Attention to All Investors and General Public

Dear Client,

We have recently become aware of the website <https://www.occtabot.com> & Facebook Page: <https://www.facebook.com/occtabot> are unlawfully and without our authorization using the Name of Angel One Limited to deceive the general public. This platform is engaged in the business of selling fake algo software plans and defrauding investors. This Website / Social media page is owned by Ms. Heena Vipulkumar Chauhan who was an Authorized Person of Angel One Limited in the past and whose Authorized Person registration with Angel One Limited stands terminated.

Presently, we do not have any association whatsoever with Ms. Heena Vipulkumar Chauhan and we have not authorized the said person to use our Company name and logo.

Therefore, Investors and General Public are hereby cautioned to not have any association and/or relation, directly or indirectly with the aforementioned website / Ms. Heena Vipulkumar Chauhan or the said Facebook page in any capacity.

We would like to inform everyone that Angel One Ltd. has no involvement whatsoever in such activities and we strongly condemn any fraudulent actions carried out in our Company's name. We are a reputable Company committed to upholding the highest standards of integrity and professionalism in all our operations.

Angel One Limited will not be liable in any manner of financial loss and /or consequence of dealing with such entity/individual. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.

Please remember that Angel One Ltd. takes your security and trust seriously and we remain dedicated to providing our customers with reliable and legitimate services. Thank you for your cooperation and assistance in preventing any further suspicious activities.

Zomato serves up mcap bigger than TaMo, Bajaj

Stock could be a ‘potential doubler in three to four years’

NIKITA VASHIST
New Delhi, 19 December

Food delivery and quick commerce (qcom) service application (app) Zomato now commands a market capitalisation (mcap) higher than automobile giants Tata Motors and Bajaj Auto. Zomato, whose shares closed 1.18 per cent lower on Thursday at ₹288.45 apiece, has an mcap of ₹2.78 trillion, according to BSE data. By comparison, Tata Motors’ mcap stood at ₹2.74 trillion, while Bajaj Auto’s was ₹2.5 trillion on the BSE.


Tata Motors ended 1.5 per cent weaker on Thursday at ₹744.3 per share, while Bajaj Auto’s shares gained 0.2 per cent to close at ₹8,972.5. The S&P BSE Sensex, on the other hand, fell 964 points, or 1.2 per cent, to close at 79,218. So far in calendar year (CY) 2024, Zomato’s share price has more than doubled, soaring 135 per cent from ₹124 per share at the end of CY 2023. The shares reached their all-time high of ₹304.5 on December 5.

Tata Motors shares, meanwhile, have dropped around 2 per cent this year, while Bajaj Auto shares have risen roughly 32 per cent. The BSE benchmark has generated a return of 9.6 per cent during the period.

In a report last month, analysts at Morgan Stanley said Zomato’s stock could be a “potential doubler in three to four years”. The brokerage raised the stock’s target price to ₹355 but retained its ‘overweight’ rating.

“On a consolidated basis, our price target now implies an enterprise value (EV)/adjusted earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation (Ebitda) multiple of 62x on 2026-27 estimated (FY27E) adjusted Ebitda, which would imply an EV/adjusted Ebitda to adjusted Ebitda compound annual growth rate (CAGR) of 1.7%,” the brokerage said.

Individually, it values the food



delivery business at 32x on FY27E adjusted Ebitda earnings (base case), 30x (bear case), and 35x (bull case), implying an EV/adjusted Ebitda to adjusted Ebitda CAGR ratio of 1.4x-1.5x.

It values the qcom business using a 2030-31 estimated (FY31E) adjusted Ebitda multiple of 25x for the bear case, 36x for the base case, and 41x for the bull case, implying an EV/adjusted Ebitda to adjusted Ebitda CAGR ratio of 1.4x.

According to Morgan Stanley analysts, Zomato is well positioned among the key players to leverage the booming qcom industry.

It expects Zomato to maintain around 40 per cent market share

in the qcom industry, which, according to the brokerage, could be worth \$6.8 billion by the end of CY 2024. Morgan Stanley further sees the industry growing to \$42 billion by CY 2030 (base case) and \$55 billion (bull case).

However, as near-term competition intensity could remain high, Morgan Stanley forecasts the company will remain at adjusted Ebitda breakeven for slightly longer than one to two quarters.

“We are revising our qcom gross order value and revenue estimates higher for FY27 by 25-34 per cent. We are also factoring in higher investments in the next 12 months, pushing our profitability assumptions back by 12 months. This drives cuts to our FY27 adjusted Ebitda estimates, but we expect adjusted Ebitda margins of over 5 per cent by FY31,” it said.

Zomato’s Bistro

Meanwhile, Zomato’s wholly owned subsidiary, Blink Commerce, recently launched a new app called Bistro, which offers delivery of convenience food items, including hot and cold beverages, shakes, juices, snacks, fast food, value meals, and desserts, within 10 minutes. This is similar to Zepto Café and Swiggy Bolt.

According to an analysis by JM Financial Services, since Bistro will deliver food from self-operated kitchens, the platform will have much better control over the quality of ingredients, hygiene conditions in the kitchen, and delivery timelines, which should improve customer experience and increase ordering frequency.

“While we await more details before incorporating the impact of Bistro’s launch into our model, this could help Zomato better penetrate the small-ticket food consumption space in India,” the brokerage said, maintaining a ‘buy’ rating.



EVALUATING FUND PERFORMANCE

Exit a fund only if underperformance persists for 8 quarters

LARISSA FERNAND

During her annual portfolio review, Mignonne D’Souza (name changed on request), a 44-year-old content writer based in Mumbai, found that four of her seven mutual funds had outperformed, while three lagged behind their benchmarks. D’Souza is wondering if she should stick to these funds or exit them.

The Sensex began the year at 72,240 and closed at 79,218 on December 19, 2024. While the rising tide boosted most funds, some have not delivered. However, underperformance does not automatically warrant a sell decision.

Evaluation criteria

Consider multiple performance metrics. First, review trailing returns over various horizons, giving greater weight to longer-term performance. Second, look at calendar year returns to determine consistency. Third,

examine three- or five-year rolling returns for a comprehensive view. Compare the fund’s performance against its benchmark and category average. “If similar funds are doing better, the underperformance could be due to the fund manager’s suboptimal decisions,” says Gurmeet Singh, head of wealth management, DIVitas Capital. Focus on consistency of performance.

DON’T BURN YOUR FINGERS CHASING HOT FUNDS

- Past performance does not guarantee future results; market conditions that led to strong past returns may not persist
- Top-performing funds often revert to the mean over time
- Chasing performance can lead to buying high and selling low as investors pile into hot funds after they’ve already had strong runs
- Performance-chasing can result in frequent trading and higher costs
- Funds with the best recent performance often attract large inflows, making it harder to maintain that performance
- Focusing solely on returns ignores risk; high-performing funds may be taking on excessive risk

How Sebi’s new proposal on DigiLocker may help kin of deceased holders?

Market regulator Sebi has proposed using DigiLocker, a government digital storage system, to make it easier to manage and transfer financial assets when someone passes away. The idea is that financial documents, like statements for demat accounts (which hold stocks) and mutual funds, will be

stored securely in DigiLocker.

When a person dies, DigiLocker will automatically update their account and notify the person they’ve nominated — like a family member — to manage the assets.

This way, the nominee can access the deceased’s financial details and work with the right

agencies to transfer the assets.

Sebi’s goal is to prevent unclaimed assets —like stocks or funds — from being left behind and to ensure that assets go smoothly to the right heirs. In its consultation paper, the regulator has proposed that depositors and mutual funds should provide demat and mutual fund

the fund manager is taking steps to rectify it.

Put fund on watchlist

Give the fund manager adequate time to recover. “If underperformance persists for six consecutive quarters, which means the fund is in the bottom two quartiles, then it is a red flag. Put the fund on a watchlist because this is long enough for the fund manager to do course correction,” says Mahesh Mirpuri, financial coach and MF distributor. Putting a fund on watchlist does not necessarily mean you sell it, though you may stop your systematic investment plan (SIP) in it. If underperformance persists after eight quarters, exit.

Handling mergers

To cite an example, this year DSP World Agriculture Fund merged into DSP World Mining Fund. If you are not comfortable with a change of underlying fund in a fund of funds (FoFs), or the broadening, narrowing, or alteration of investment mandate due to a merger of schemes, decide whether you want to stick to the new entity.

High returns in short period

Those who invested during the market lows of March 2020 saw returns as high as 70 per cent within six months. If an investment has doubled within 12 months, it is unlikely to double again in the short term, but it could halve. Booking partial profits can be prudent. Consider personal factors. If you need money for an emergency, your goal is near, or with advancing age you prefer a lower allocation to equities, consider redeeming.

COMPILED BY SUNAINAA CHADHA

Gujarat State Petronet Limited
Corporate Identity Number : L40200G/1998SGC035188
Regd Office: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010, Gujarat.
Tel.: +91-79-23268500/700 **Fax:** +91-79-23238506 **Website:** www.gspcgroup.com

NOTICE INVITING TENDER
Gujarat State Petronet Limited (GSPU) is currently operating more than 2700 Km of gas pipelines to facilitate gas transmission from supply points to demand centers across Gujarat. GSPU invites bids from competent agencies for following requirements.
Tender-1: Replacement & Rectification of Optical Fibre Cable
Tender-2: Procurement of Ni-CD battery for UPS system across the GSPU gas grid
Tender-3: Appointment of contractor for extension of casing length in ARPL-A and GHPL sections of GSPU
Tender-4: Procurement of 16" 600# USM Meter Runs and Natural Gas Chromatographs for Dahej-Bhadbut Pipeline Project of GSPU
Tender-5: Und River Crossing by HDD, Hot Tapping & Stopple-In method with associated work of 30" dia. Rajkot Jamnagar Pipeline of GSPU
Aforementioned tenders shall be published online through n-Procure, and bids are accepted through n-Procure (<https://gspitender.nprocure.com/>) only. Date of tender upload on n-Procure portal is 20-12-2024 @ 15.00 hrs. IST

ANGEL ONE LIMITED
Regd. Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 **SEBI Registration No (Stock Broker):** INZ000161534

PUBLIC NOTICE
This is to inform that website <https://www.occtabot.com> & Facebook Page: <https://www.facebook.com/occtabot> are unlawfully, without our authorization, using the Name of Angel One Limited to deceive the general public. This platform is engaged in the business of selling fake algo software plans and defrauding investors. This website/Social media page is owned by Ms. Heena Vipulkumar Chauhan who was an Authorized Person of Angel One Limited in the past and whose Authorized Person registration with Angel One Limited stands terminated. Presently, we do not have any association whatsoever with Ms. Heena Vipulkumar Chauhan and we have not authorized the said person to use our name and logo. Therefore, Investors and General Public are hereby cautioned to not have any association and/or relation, directly or indirectly with the aforementioned website / Ms. Heena Vipulkumar Chauhan or the said Facebook page in any capacity.
Angel One Limited will not be liable in any manner for any financial loss and /or consequence of dealing with such entity/individual. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.
For ANGEL ONE LTD
Sd/-
Authorized Signatory
Date : 20.12.2024

— TENDER CARE —

— Advertorial

IMFA ENTERS INTO JOINT VENTURE WITH JSW GREEN ENERGY

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA), the country’s leading fully integrated producer of ferro chrome, announced a joint venture with JSW Green Energy to source renewable energy for its smelting operations. IMFA has signed a binding term sheet with JSW Green Energy One Ltd and JSW Green Energy Seven Ltd, and will invest Rs 83.26 crores in a hybrid project that combines 50 MW AC solar and 100 MW wind for a total contracted capacity of 70 MW. The Company will subsequently sign a power purchase agreement (PPA) as a captive consumer which will be valid for 25 years. Mr Binoy Agarwalla, Vice President & Head - Power Business Unit said: “As a pioneer in the ferro alloys industry with backward integration into captive power, renewable energy is a key aspect of reducing our carbon footprint. By combining solar and wind power, we are taking a proactive step towards a green future and aligning with the global trend of sustainability.” IMFA is putting up a 100,000 tonnes per annum greenfield facility at Kalinganagar, Odisha to augment its ferro chrome production in line with increasing demand.



BUSINESS EXCELLENCE MEET AT SOLAPUR STPP

The Business Excellence Meet, is being organized by Corporate Business Excellence (BE) and NTPC Solapur Super Thermal Power Project (STPP) from December 18th to 22nd, 2024. This event brought together key stakeholders and assessors to discuss and strategize the path towards achieving business excellence in the organization. The inaugural session of the meet took place at the HOP Conference Hall on 18th December 2024 and comprised of Shri G V S Rao, Quality Champion along with five other distinguished assessors. All of them were welcomed by Shri Tapan Kumar Bandyopadhyay, Chief General Manager of NTPC Solapur. In his address, Shri G V S Rao highlighted the importance of business excellence as a collaborative effort, urging all Heads of Departments (HODs) to take ownership of the process. He emphasized that the pursuit of business excellence requires collective action and teamwork across all levels of the organization.



IDBI BANK ORGANIZES EXPORTERS' MEET IN LUDHIANA

IDBI Bank (Ludhiana Region) in co-ordination with Federation of Indian Export Organisations (FIEO) on 12-12-2024 held an Exporters' Meet to have a panel discussion on “Future Global Business Scenario for Indian Inc's” & understanding “Letter of Credit” for minimizing risks. The Panelists included Sh. S.C.Ralhan (Past President & member Managing Committee, FIEO), Sh.Vinay Sharma (Deputy Director, Punjab Chapter – FIEO), Sh.Prashant Sethi (DGM & Regional Head, IDBI Bank), Sh.Sanjay Dwivedi (DGM & Head, CSC Ludhiana), Sh.Ranjana Das (AGM & Head, TF, Ludhiana) and Sh.Vijay Chhabra (Manager, Treasury). The programme was conducted to connect with the customers, to create awareness about the bank facilities and services available to the exporters and also about the various facilities given by the government.



HPCL WINS SUSTAINED EXCELLENCE CATEGORY AWARD AT THE 17TH EDITION OF BML MUNJAL AWARDS

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) has been awarded the prestigious BML Munjal Award for its Excellence in Business through Learning and Development. HPCL has won the award in the Sustained Excellence category. Director - Finance & Additional Charge of Chairman & Managing Director, HPCL, Shri Rajneesh Narang along with Director – Marketing, HPCL, Shri Amit Garg, Director- Human Resources Shri K S Shetty received the award from Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry, and Shri Sunil Kant Munjal, Chairman Hero Enterprise in the presence of Senior Officials from HPCL at a glittering ceremony at New Delhi. The Guest of Honour at the event was Shri Amitabh Kant, India’s G20 Sherpa and former CEO of Niti Aayog.



BANK OF INDIA, RAJKOT ZONAL OFFICE, ORGANIZES SUCCESSFUL NRI MEETING TO ENHANCE CUSTOMER ENGAGEMENT AND CSR

Bank of India, one of India’s leading public sector banks, hosted a successful meeting for Non-Resident Indians (NRIs) on 18.12.2024 at RPJ Hotel, Rajkot. The event aimed to strengthen the bank’s relationship with its NRI clientele and provide them with valuable insights into the various banking services tailored for their needs. The Event was graced by August Presence of Shri. Subrat Kumar (Executive Director), Shri S B Rai (Chief General Manager), Shri Ajeya Thakur (General Manager) and Shri Madhukar (Zonal Manager, Rajkot Zone). The meeting featured presentations from senior officials from Foreign Exchange Department, Gift City who discussed key topics such as investment opportunities, regulatory updates, and customized banking solutions for NRIs. Attendees were encouraged to participate actively, sharing their concerns and suggestions, which were well-received by the bank’s management. The event concluded with an interactive QA session, allowing attendees to engage directly with bank officials.



SJVN'S RAMPUR HPS ACHIEVES ITS DESIGN ENERGY FOR FY 2024-25

SJVN's 412 MW Rampur Hydro Power Station has achieved its design energy target of 1878.08 million units for the financial year 2024-25 on 18th December 2024. This record has been clocked over three months ahead of schedule. This marks the second-fastest record for design energy generation by Rampur HPS, closely following the earlier record set on 15.12.2019 during FY 2019-20. These accomplishments reflect the high technical standards, efficient maintenance practices and operational excellence practiced by the power station.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT CHENNAI
CP(CAA)/69/CHE/2024
IN
CA(CAA)/41/CHE/2024
In the matter of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act,2013
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of Baghauli Sugar and Distillery Limited with Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited and their respective Shareholders and Creditors.

Baghauli Sugar and Distillery Limited,
A company incorporated under Companies Act, 1956, having its registered office at, Trichy-Chidambaram Salai, Dalmiapuram, Kallakudi TR, Tiruchirappali, Lalgudi, Tamil Nadu- 621651

... Petitioner Company/ Transferor Company


Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited,
A company incorporated under Companies Act, 1956, having its registered office at, Trichy-Chidambaram Salai, Dalmiapuram, Kallakudi TR, Tiruchirappali, Lalgudi, Tamil Nadu- 621651

... Non-Petitioner Company/Transferee Company

NOTICE
Notice is hereby given that by an order dated December 04, 2024, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal has fixed the date of hearing of the Company Petition filed by the Petitioner Company (Baghauli Sugar and Distillery Limited) under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for the sanction of Scheme of Amalgamation of Baghauli Sugar and Distillery Limited with Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited and their respective Shareholders and Creditors, on the February 05, 2025. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner’s Advocate, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioner’s Advocates not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated this day of December 19th, 2024 at Chennai

Sd/-
PAWAN JHABAKH
Counsel for the Petitioner
New No. 115, First Floor,
Luz Church Road,
Mylapore, Chennai – 600004



► संक्षेप में

परनो, एबी इनबेव पर सीसीआई की छापेमारी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने शराब क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों पर नो रिकार्ड ऑफ एनरहेस-बुश इन्वेव के कुछ कार्यालयों पर छापे मारे हैं। दक्षिणी भारत में खुला विक्रेताओं के साथ कीमती में मिलीभगत के आरोपों की जांच के तहत ऐसा किया गया है। मामलों से परिचित सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रारंभ में बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा बुधवार को की गई अचानक इस छापेमारी में हैदराबाद के कार्यालयों और पास के तेलंगाना राज्य के कुछ खुदरा विक्रेताओं को भी निशाना बनाया गया। यह हाल के वर्षों में उद्योग जगत पर की गई सबसे बड़ी छापेमारी में से एक है। बटवड़ाइज बॉयंग बनाने वाली एबी इन्वेव ने बयान में कहा, 'हालांकि हम इस जानकारी के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम एकाधिकार व्यापार रोधी क्रिया-व्यवस्था को काफी गंभीरता से लेते हैं।' हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' परन्तु ने बयान में कहा कि वह भारतीय कानूनों का अनुपालन करती है और इस मामले में अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है।

माइक्रोमैक्स और फिसन ने बनाया संयुक्त उद्यम

हल्वेक्ट्रीनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और ताड़वान की स्टोरेज चिप कंपनी फिनस ने स्थानीय स्तर पर आर्चिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित 'स्टोरेज चिपस्टेट मॉड्यूल' के डिजाइन व विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम एमआईपीएचआई की स्थापना की है। माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स के सह-संस्थापक राहुल शर्मा ने बताया कि कंपनी ने नोएडा संयंत्र में उत्पादन शुरू कर दिया है। शर्मा ने कहा, 'फिनस एनएनएडी कंट्रोलर और एनएनडी स्टोरेज प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है। हमने भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उनके साथ साझेदारी की है, जिसमें माइक्रोमैक्स की 55 प्रतिशत और फिनस की 45 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।' उन्होंने कहा कि कंपनी सर्वर के लिए स्टोरेज चिपस्टेट डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सवाल जवाब

**‘विश्व की इंजीनियरिंग भूमिकाओं में
करीब एक-चौथाई हिस्सा भारत का’**

सकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार का मानना है कि उद्योग को भू-राजनीतिक चुनौतियाँ, बढ़ती नैच्युरल गैस माँगों और तीव्र तकनीकी उपलब्धता के कारण जैसी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद एआई से मिले अवसर इस क्षेत्र के विकास के लिए सही वक्त का इशारा कर रहे हैं। शिवानी शिंदे के साथ वर्युल साक्षात्कार में उन्होंने नैसकॉम की वार्षिक रिपोर्टों, प्रतिभाओं की कमी और उद्योग के भविष्य को लेकर चर्चा की। प्रमुख अंश ...



द्वारा 17 दिसंबर, 2024 को घोषित नवीनतम
नियम एच-1बी वीजा के लिए पात्रता को स्पष्ट
करता है और यह सही दिशा में उद्योग या कदम है।
नैसर्गिक पिछले एक साल के दौरान कई प्रस्तुतियों
के जरिए संतुलित सुधारों की सक्रिय रूप से
व्यावकालत कर रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि
एच-1बी के तंत्र से मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों
की तुलना में अमेरिकी फर्मों को ज्यादा फायदा होता
है। इसलिए अमेरिकी कंपनियों के लिए यह
महत्वपूर्ण है कि वे अपने न्युटिकनों को हमारे
अनुरूप करें। हम मौजूदा और आने वाले अमेरिकी
प्रशासन के साथ मिलकर एक नई नीतियों के आकार
के लिए सक्रिय रहेंगे, जो वैश्विक कार्यबल की
बढ़ती मांगों पर ध्यान देती हैं।

यह विचार जोर पकड़ रहा है कि आइटी सेवाओं ने पर्याप्त नवाचार नहीं किया है। वैश्विक डिजिटली मोडल सबसे महत्वपूर्ण नवाचार बना हुआ है। आप इस आलोचना से किस तरह निपटेंगे, खास तौर पर आईई के दौर में ?

मैं इस विचार से आंशिक रूप से असहमत हूं। तकनीकी उद्योग में नवाचार विभिन्न स्तरों पर होता है। हालांकि हमें अनुसंधान एवं विकास (आर-एंड-डी) में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है,

लेकिन भारत में नवाचार की कई मिसालें हैं। उदाहरण के लिए विक्रम कॉम्पर्स मॉडल विशिष्ट रूप से भारतीयता और यो टेक-फस्ट कंपनियों हैं। भारत सेवा क्षेत्र के नवाचार के मामले में वैश्विक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, जो देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के तेजी से विकास से स्पष्ट है। हालांकि उद्योग ने भले ही श्रम या तकनीकी के लाभ के साथ शुरुआत की हो, लेकिन हमने इसे खासा बेहतर किया है। आज हम नवाचार फायदों की पेशकश कर रहे हैं।

फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपने पेटेंट आवेदनों में सुधार करने और आरएंडडी में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। रास्ट्र और कंपनी दोनों ही स्तरों पर आरएंडडी खर्च फिलहाल काफी कम है। हालाँकि यह बात गौर करने लायक है कि दुनिया की लगभग एक-चौथाई इंजीनियरिंग भूमिकाओं में भारत की हिस्सेदारी है। यहाँ स्टार्टअप और कंपनियों महत्वपूर्ण नवाचार को आगे बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए साल 2023 में 83,000 पेटेंट दाखिल किए गए जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत इजाफा दर्शाती हैं। यहाँ रफ़्तार तो है, लेकिन निश्चित रूप से और ज्यादा करने की गुंजाइश है।

वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में उद्योग में पहली बार कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखी गई। क्या यह एआई के संबंध में माना जाना चाहें? आपने कोशल के महत्व का भी उल्लेख किया है। उद्योग इस बदलाव को हमेशा क्या तैयारी कर रहा है?

लिपन ने लिप्टा की कहा है कि एआई सीधे लोगों की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय एआई टूल वाले लोग उन लोगों की जगह लेंगे, जिनके पास एआई टूल नहीं हैं। उद्योग डिंडी के मूल्यांकन से टेकर कोशल के मूल्यांकन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। उद्योग के लिए प्रमाणपत्र कोशल का आकलन करने का महत्वपूर्ण तरीका बन रहे हैं।

नाम में बदलाव
 मैं पवार अभिजीत सांभोजी
 नं. 1551110387 रकू ALD मेरी
 आर्मी सर्विस रेकॉर्ड में मेरे सुपुत्र
पवार राजजीत अभिजीत का नाम
 सिर्फ राजजीत दर्ज किया गया है,
 जो को गलत है। मेरे सुपुत्र का सही
 नाम **पवार राजजीत अभिजीत**
 गांव- मेणारगुजरी तहसील- तारामवा,
 जिला- सांगली पिन ४१६ ३१२
 रहता महाशय है। भावियमे मेरे
 लिखने, पढ़ने, बोलने में पवार
 राजजीत अभिजीत काको सच माना
 या जाना जाना।
नोटरी नं. 2753/2024
 दि. ०९ सितंबर २०२४

केकेआर ने रेबल फूड्स में किया निवेश

वैश्विक निवेश फर्म केकेआर ने भारत में ग्रोथ इन्वियटि पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए विश्व के सबसे बड़े मल्टी ब्रांड क्वाइट किचन एप्लेन्स फर्म रैगल फूड्स में निवेश किया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अनुमानित रूप से 6 से 7 करोड़ डॉलर का निवेश किया है जिससे कंपनी का मूल्यंकन बढ़कर 80 से 86 करोड़ डॉलर (6,800 करोड़ रुपये से 7,315 करोड़ रुपये) के बीच हो गया है।

SBFI

सर्वसमय माध्यम, कॉन्सोर्टेड सेंटर, तीसरी मंजिल,
द आर्केड, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, काफ परेड, मुंबई - 400005

निविदा आमंत्रण सूचना

आंतराफ्फनी नं. **SBFI/ACV/2024-25/006** दिनांक: 20.12.2024

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आंतराफ्फनी नं. **SBFI/ACV/2024-25/006** दिनांक 20.12.2024 के अंतर्गत भारत भर में 10000 एहपीए के लिए सीआरए (नकद पुनःपूर्ति एजेसिया) के माध्यम से नकद पुनःपूर्ति सेवाओं की निष्पत्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक बोलीदाता बोलियां प्रस्तुत करने के लिए बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi> पर प्रॉक्वोरमेंट न्यूज़ के अंतर्गत और GEM पोर्टल <https://gem.gov.in> पर देखा जा सकता है। आंतराफ्फनी के डाउनलोड का आरंभ: 20.12.2024 को दोपहर 03:00 बजे से बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 27.01.2025 को दोपहर 03:00 बजे तक.

हस्ताक्षर / -
उप महाप्रबंधक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 20.12.2024

(कार्यान्वयन व रोल आउट)

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, Akruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093 **SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000116153**

PUBLIC NOTICE

This is to inform that website <https://www.occtabot.com> & Facebook Page: <https://www.facebook.com/occtabot> are unlawfully, without our authorization, using the Name of Angel One Limited to deceive the general public. This platform is engaged in the business of selling fake algo and binary options and defrauding investors. This website/Social media page is owned by Ms. Heena Vipulkumar Chauhan who was an Authorized Person of Angel One Limited in the past and whose Authorized Person registration with Angel One Limited stands terminated. Presently, we do not have any association whatsoever with Ms. Heena Vipulkumar Chauhan and we have not authorized the said person to use our name and logo. Therefore, Investors and General Public are hereby cautioned to not have any association and/or relation, directly or indirectly with the aforementioned website / Ms. Heena Vipulkumar Chauhan or the said Facebook page in any capacity.

Angel One Limited will not be liable in any manner for any financial loss and/or consequence of dealing with such entity/individual. Please note that any person dealing with them will be dealing at his/her own risk and responsibility.

For ANGEL ONE LTD
Sd/-
Authorized Signatory

Date : 20.12.2024

40 करोड़ टन क्षमता की तैयारी में जेएसड

प्राची पिसाल
मुंबई, 19 दिसंबर

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा) ने वित्त वर्ष 2030 तक कार्गो संभालने की अपनी क्षमता दोगुनी से अधिक बढ़ाकर सालाना 40 करोड़ टन करने की योजना बनाई है। शेयर बाजार की दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 2025 से 2030 के बीच 30 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजीगत व्यय करेगी।

एलारा कैपिटल के मुताबिक कंपनी की कार्गो क्षमता सालाना 17 करोड़ टन है और वह इसे वित्त वर्ष 2028 तक बढ़ाकर सालाना 28.8 करोड़ टन करना चाहती है। कंपनी वित्त वर्ष 2030 तक 15 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से क्षमता बढ़ाकर 40 करोड़ टन करेगी।

कंपनी 4.25 करोड़ टन कार्गो संभालने की क्षमता का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र और गोवा के



जयगढ़ और धरमतर में अपने बंदरगाहों को उन्नत बना रही है। जेएसडब्ल्यू की महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाएं ओडिशा के जटाधर, कर्नाटक में केणी और महाराष्ट्र के मुरबे में हैं। तीन नई परियोजनाओं से कंपनी के कार्गो हैंडलिंग में 9.3 करोड़ टन क्षमता विस्तार की उम्मीद है। केणी बंदरगाह पर 4,119 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। जटाधर बंदरगाह पर 3,000 करोड़ रुपये जबकि मुरबे बंदरगाह की लागत 4,259 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

एलारा कैपिटल के मुताबिक जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच 25 फीसदी

विस्तार अदाणी पावर

ब्ल्यू इन्फ्रा समझौते के

सीपीजीआर से 10.6 करोड़ टन मात्रात्मक वृद्धि वाली सबसे तेजी से बढ़ने वाली बंदरगाह संचालक है। कंपनी लॉजिस्टिक्स इकाई खरीदी है और ओडिशा में 1,700 करोड़ रुपये में बहुलांश हिस्सेदारी करेगी। बिजली देने के लिए करार लाभ लेकर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाए। एजेंसी रॉयटर्स ने भी ये दस्तावेज देखे।

साल 2017 में अरबपति कारोबार की कंपनी ने पूर्वी भारत में अपने बिजली देने के लिए बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि फिर से बातचीत की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बगैर किसी भारतीय कंपनी को दे दिया था। साथ ही बांग्लादेश विद्युत एजेंसी के दस्तावेजों के पत्रों के साथ-साथ छह बांग्लादेश सरकार ने बातचीत से पात चलाता है कि इसका अर्थ है अन्य कोयला बिजली सौदों से कम।

जुलाई 2023 में आपूर्ति शुरू होने के बाद सरकार अदाणी पावर को भुगतान करने से उस पर पहले ही आपूर्ति की जा चुकी करोड़ों डॉलर बकाया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार बकाया राशि के सटीक अंकों पर नहीं बता रही है।

वहीं, बांग्लादेश के बिजली मंत्री अबुल कबीर खान ने रॉयटर्स से कहा है कि बांग्लादेश सरकार अदाणी पावर को बिजली देने के लिए करार लाभ लेकर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाए। एजेंसी रॉयटर्स ने भी ये दस्तावेज देखे।

साल 2017 में अरबपति कारोबार की कंपनी ने पूर्वी भारत में अपने बिजली देने के लिए बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि फिर से बातचीत की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बगैर किसी भारतीय कंपनी को दे दिया था। साथ ही बांग्लादेश विद्युत एजेंसी के दस्तावेजों के पत्रों के साथ-साथ छह बांग्लादेश सरकार ने बातचीत से पात चलाता है कि इसका अर्थ है अन्य कोयला बिजली सौदों से कम।

जुलाई 2023 में आपूर्ति शुरू होने के बाद सरकार अदाणी पावर को भुगतान करने से उस पर पहले ही आपूर्ति की जा चुकी करोड़ों डॉलर बकाया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार बकाया राशि के सटीक अंकों पर नहीं बता रही है।

वहीं, बांग्लादेश के बिजली मंत्री अबुल कबीर खान ने रॉयटर्स से कहा है कि बांग्लादेश सरकार अदाणी पावर को बिजली देने के लिए करार लाभ लेकर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाए। एजेंसी रॉयटर्स ने भी ये दस्तावेज देखे।

र पर अरबों डॉलर के उल्लंघन का आरोप

मुंबई संस्करण: विजनेस स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता खेसारी द्वारा मे. संगम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, वीधा एमआरडीसी, टीसीपी ईस्टवुड परिया, विष्णु नगर, वीधा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं विजनेस स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, फोरम सेंटर, बिड़ला सेचुरियन के सामने, पी वी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित

संपादक : कैलाश नौटियाल, आरएनआई नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक : lettershindib@gmail.in प्र. संदेश माग सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599

सूची मानकी सिंह हे. के. करमचंद वीरगंज विजनेस स्टेट्स लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, फोरम सेंटर, बिड़ला सेचुरियन के सामने, पी वी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल, subs_bbs@gmail.in या 57575 फॉर एरररमाग कर करें REACHBS कोई हार्ड अथिगम नहीं